

## O. P. CHAINS LIMITED

Regd Off: 8/16 A, Seth Gali, Agra-282003 Uttar Pradesh

(CIN: L27205UP2001PLC026372) E Mail: opchains@rediffmail.com Web: www.opchainsltd.com

Ph: 0562-4045117, Fax: 4044990

To Date: 03.08.2021

**Corporate Compliance Department BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

**BSE Scrip Code:** <u>539116</u>

SUB-Submission of Newspaper Publication for 20th Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find attached herewith Newspaper Publication of Notice of 20<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company as per Regulation 42 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for your information and records.

And following is the link of Notice of 20<sup>th</sup> Annual General Meeting uploaded on website <a href="http://www.opchainsltd.com/announcement/Noticeof20thAnnualGeneralMeeting.pdf">http://www.opchainsltd.com/announcement/Noticeof20thAnnualGeneralMeeting.pdf</a>

You are requested to take on the record and do the needful. Thanking You

Yours Faithfully

For O.P. Chains Limited

Ashok Kumar Goyal Whole Time Director DIN: 00095313 **FINANCIAL EXPRESS** 

# Tesla's India plans dealt blow as minister rules out tax cut

**RAGINI SAXENA** New Delhi, August 2

**INDIA SAID IT** has no plans to cut import duties on electric vehicles, weeks after Tesla appealed to the government to slash taxes, and its billionaire chief Elon Musk floated the possibility of a local factory once it starts selling wholly-built units from overseas in the world's secondmost populous nation.

consideration in ministry of heavy industries," minister of ring to the ministry in charge of making policies for the auto industry. He added that the government is however taking steps to promote the ing domestic taxes and

A Tesla factory to produce cars in India is "quite likely" if the electric automaker can first begin sales with imported vehicles, chief executive officer Musk said in a subsequent tweet. Musk has for years showed his eagerness to enter one of the world's most-promising

of Insider Trading) Regulation, 2015.

maintenace of Dairy ERP Module.

Place: VPO Rupana



automobile markets, but complained that Indian rules prohibit him from testing the waters first with imports, as high duties make Tesla cars "unaffordable."

Tesla is seeking to make inroads into Asia's thirdlargest economy, where electric vehicles account for less than 1% of annual car sales, compared with about 5% in China. The sparse charging infrastructure and expensive cost have deterred large scale adoption of electric vehicles in India, unlike China where Tesla set up its first factory outside of the US and now dominates electric-car sales.

the top local carmaker that sells every other car on Indian roads, glum about the uptake of electric cars in the nation. "Unfortunately the tech-

nology presently available leads to electric cars being produced at a cost much higher than the conventional cars," Maruti's chairman RC Bhargava said in the company's annual report Monday. "This, along with the lack of charging infrastructure makes it very difficult to sell electric cars to people who can only afford small cars."

The market penetration of electric vehicles will be "very small" given that only 5% of

SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED

CIN:L74899DL1968PLC004962

Regd. Off.: D-13/4, Okhla Industrial Area,

Phase-II, New Delhi-110 020

Tel.:011-40115817 | Email: sect@salora.com

Website: www.salora.com

NOTICE

Notice is hereby given that as per requirement of

Regulation 29 and 47(1)(a) of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, 287th meeting of Board of

Directors of the Company is scheduled to be held on

Thursday, 12th August, 2021 at the Registered

Office of the Company inter-alia to consider and

approve Unaudited Financial Results of the

The said notice can be accessed on the website of

Company at www.salora.com and BSE Ltd. (Stock

Further trading window for dealing in shares of the

Company which has been closed from 1st July, 2021

for all the Directors / Designated Persons and their

immediate relatives, will be opened after expiry of

48 hours from declaration of the said unaudited

financial results for 1st quarter ended 30th June,

For Salora International Ltd.

(Anubhav Nigam)

Company Secretary

Company for 1st quarter ended 30th June, 2021.

Exchange) at www.bseindia.com.

Place: New Delhi

Date: 02nd August, 2021

cars sold in India are priced above ₹1.5 million (\$ $2\bar{0}$ ,169), said Bhargava, who heads the local unit of Japan's Suzuki Motor. The per capita income in India is only \$2,000 - 5%of that in Europe and Japan which puts expensive electric cars beyond the reach of most consumers, he said.

concerns that without progress in cleaning up poorer nations' roads, global warming won't be kept below dangerous levels even as richer nations plan to phase out combustion-engine vehicles to combat climate change. Most EVs are sold in the US, China and Europe, where state-backed purchasing incentives and investments in charging infrastructure make it easier for customers to abandon combustion cars.

Such statistics have raised

To achieve net-zero emissions, Maruti will work on hybrid models, improve technology for cars running on compressed natural gas and look into biofuels, Bhargava said. "The use of hydrogen is also an interesting alternative and should be considered specially to reduce depen-

dence on importing Lithium." -BLOOMBERG

# Auto Expo 2022 postponed due to Covid-19, says SIAM

The exact date for the

next edition of Auto

Expo would be finalised

and in alignment with

the OICA Calendar of

global Auto shows

inherent risks in organising

the Auto Expo due to the on-

going Covid-19 pandemic and

the apprehensions of a possi-

Menon noted that there is

uncertainty around how

Covid-19 would develop in the

coming months and at the

same time organising Auto

Expo would need a lead time of

tival of celebration, for the

Indian auto industry and we

look forward to receiving max-

imum people with no fear of

spread of infection," he added.

total footfalls of over six lakh

visitors. The country's flagship

auto show had witnessed

around 70 product launches

and unveils, 352 product dis-

plays from 108 exhibitors.

The Auto Expo 2020 saw

"Also, Auto Expo is like a fes-

further,

ble third wave, he said.

Elaborating

preferably a year.

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi. August 2

THE COUNTRY'S LEADING later this year keeping in automobile show, the Auto view the Covid situation Expo, which was scheduled to take place in February next year at Greater Noida, has been postponed due to the Covid-19 situation and apprehensions of a possible third wave, industry body SIAM said on Monday. and SIAM recognises the

The last edition of the biennial automobile show took place in February 2020.

"The magnitude of the risk of spread of infection is extremely high in a business-to-consumer (B2C) show like the Auto Expo which is visited by large crowds and maintaining social distancing would be difficult. It has therefore been decided to postpone the Auto Expo The Motor Show for now," Society of Automobile Manufacturers (SIAM) director general Rajesh Menon said in a statement.

The exact date for the next edition of Auto Expo The Motor Show would be finalised later this year keeping in view the Covid situation and in alignment with the OICA Calendar of global Auto shows, he added.

Menon noted that safety of exhibitors, visitors and all stakeholders involved and present at the Auto Expo is the top most priority for SIAM.

CIN: L27205UP2001PLC026372

R/O: 8/16 A, SETH GALI, AGRA,

UTTAR PRADESH-282003

Email Id: opchains@rediffmail.com

Website: www.opchainsltd.com

NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 20th Annual

General Meeting (AGM) of the

Company will be held on Monday, 30th

August, 2021 at 11:00 A.M. onwards at

Temptation, B-87, Central Bank Road,

Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh-

282005 to transact Ordinary business as

set out in the notice of AGM dated 30th

July, 2021. The said notice along with

proxy form, attendance slip and Annual

Report together with Financial

Statements have been sent to all the

Members electronically whose E-mail

Id's are registered with the Company as

on 02.08.2021. For those shareholders

who did not received these related

documents they can get copy of the same

All these documents are also available

on the website of the company i.e

www.opchainsltd.com and also

available on the website of Bombay

Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

BOOK CLOSURE: - Notice is further

given that the Register of Members and

the Share Transfer Books of the

company will remain closed from

Saturday, 21st August, 2021 to Monday,

30th August, 2021 (both days inclusive)

for the purpose of Annual General

For O. P. CHAINS LIMITED

**Ashok Kumar Goyal** 

Chairman/Whole

**Time Director** 

Meeting.

Place : Agra

Date: 02.08.2021

from the website of the company.

Keeping in pace with the It is in this context that the trend of eco-friendly vehicles, Indian automobile industry the expo had also witnessed the launch of 35 electric vehicles.

# Renault starts exports of Kiger to South Africa

**FE BUREAU** Chennai, August 2

**RENAULT INDIA, A** fully owned subsidiary of Renault SAS of France, has commenced exports of its compact SUV Kiger to South Africa. Kiger is the latest in the line of products launched by Renault in India. The first batch of 760 Kiger cars have been despatched from Chennai Port to reach South Africa.

Having already started to Nepal, the company is looking further expand exports of Kiger to Indonesia, other parts of Africa and Saarc region soon. Venkatram Mamillapalle,

country CEO & MD, Renault India operations said, "The commencement of Kiger exports to South Africa today and Nepal earlier this month highlights Renault's strong commitment to the 'Make in India' mission, demonstrating the competence of India's design, engineering and world class manufacturing capabilities.

Renault's diverse range of offerings in passenger vehicles has been consistently well-received by the people of South Africa. Our latest offering Kiger will further bolster our existing portfolio in the country with its distinctive SUV look, great space, smart features and world-class sporty engine."

Loaded with several

smart attributes and powered by a sporty, world-class turbocharged 1.0L petrol engine, Kiger is a breakthrough product targeted at the core of Indian's automotive market, according to a

company release. Mamillapalle said: "We look forward expand the exports of Kiger to many international markets soon including Indonesia, other parts of Africa and Saarc region, along with growing

our customer base in India." Together with its product portfolio expansion strategy to drive volumes in India, Renault is substantially increasing its network reach in India and introducing several initiatives for the customers.



egd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 (CIN: L45101DL1979PLC009654) Website: www.acilnet.com, E-mail:- cs.corpoffice@acilnet.com

his is to inform that pursuant to Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a

meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday the 10th August, 2021 at Regd. Office A-177, Okhla Phase-1, New Delhi-110020 through virtual/ video conferencing, inter-alia, to consider the un-Audited financial results (both standalone & consolidated) for the quarter ended 30.06.2021 and other agenda items, if any For Ahluwalia Contracts (India) Ltd

Place: New Delhi

Date: 02.08.2021

Company Secretary



(CIN - L74899HR1944PLC039088)

Corporate Secretarial & Law: 15/5 Mathura Road, Faridabad-121 003.

### **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the following shares bearing distinctive numbers are stated to have been lost/ misplaced or stolen and the registered holder(s)/ applicant(s) has/ have applied for issue of duplicate share Share Holder Name/e) / Folio No. / Details of Fourth Change Land

No. of Shares	Details of Equity Shares Lost
SUSHILA DEVI AJITSARIA ESC0342599 /SHARES - 150	Dist No.: 40183145 - 40183294
ASHOK R AHUJA ESC0105526 /SHARES - 200	Dist No.: 22102409 - 22102508 28352409 - 28352508

Any person(s) who has / have any claim in respect of such aforesaid equity shares must lodge claim in writing with the Company within 15 days from the date of publication of this notice otherwise Company shall cancel the original share certificate(s) and issue duplicate share certificate(s) to the registered holder(s) / applicant(s).

Regd. Office: 15/5 - Mathura Road, Faridabad -121003, Haryana Date: 02.08.2021 Place: Faridabad

For Escorts Limited

Satyendra Chauhan Company Secretary & Compliance Officer

### South Delhi, Delhi -110025 & Branch Office at Shivalik Small Finance Bank Ltd, 1/175, Sector 1, Vikas Nagar, Lucknow, Contact No: 0522-4241888 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/Guarantor that the below described immovable

properties mortgaged to the Shivalik Small Finance Bank Ltd er. Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd, the Possession of Property was taken on 24th June 2021 by the Authorised Officer of Shivalik Small Finance Bank Ltd and will be sold on "AS IS WHERE IS". "WHAT IS THERE IS" and without any recourse basis on 08th September 2021, particulars of which are given below: Description of the Name of the Demand Date of Inspection Reserve

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE

Borrower(s) / Notice Date Immovable Money of Immovable Deposit Mortgagor(s) / and Amount properties properties Guarantor(s) (EMD) 10% of Bid 02 September 2021 All the piece and parcel of the | Rs. 1. Mr. Avinash Singh 05th April (Borrower/Mortagagor) 2021 mmovable properties 20,50,000/-1100 hrs - 1500 hrs Amount R/o A/42, Vrindavan Colony, Near bearing address-Auction Date and Rs.30.05.595/-Residential property situated | Twenty SGPGI Lucknow-226025 time of opening (Rupees Thirty at H.No. E-3/46, At Sector H, Lacs fifty of Bid 2.Mrs. Kiran Singh (Co-Borrower) 2,05,000/-Lacs Five LDA Colony, Kanpur Road Thousand R/o A/42, Vrindavan Colony, Near (Rupees 08 September Thousand five SGPGI Lucknow-226025 Yojana, Vidyadevi Nagar, Only) Two Lakhs | 2021from 1300 hrs Hundred Ninety-Distt. Lucknow, Registered 3. Mr. Dhirendra Pratap Singh Five to 1400 hrs Five only) Plus in the office of Sub Registrar-(Guarantor) R/o .C-35, NEW Thousand Further interest Sadar I Lucknow, Bahi No.1 DEFENCE COLONY, Lucknow-Only) expenses and Zild No.-23307, Pg No.-226025 other Charges 41/102, S.No.-386 on 06-01-(Loan Account No. 102441000028 2018.Land Area: - 36.75 sq.

### Registered Office: J.P. Software Park, Plot No. 25, Sy. No. 13, 14, 17 & 18, Konnapana Agrahara Village, Website: www.tejasnetworks.com | E-mail: corporate@tejasnetworks.com

**Tejas Networks Limited** 

Corporate Identity Number: L72900KA2000PLC026980

Begur Hobli, Bengaluru-560 100, Karnataka Tel.: +91 80 4179 4600 | Fax: +91 80 2852 0201

### NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Tejas Networks Limited (the "Company") will be convened to be held on Wednesday, August 25, 2021 at 4:00 P.M. (IST) through the Video-Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance to the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars") and in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the companies are allowed to hold EGMs through VC, without physical presence of the members at a common venue. Hence, the EGM of the Company is being held through VC / OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the EGM dated July 29, 2021. Hence, Members can attend and participate in the ensuing EGM

In compliance with the said Circulars, electronic copies of the Notice of the EGM has been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of the EGM is made available on the Company's website at www.tejasnetworks.com/extra-ordinary-general-meeting.php and on the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the National Securities Depositories Limited (NSDL) website www.evoting.nsdl.com. The dispatch of the Notice of EGM through emails has been completed on August 2, 2021.

their votes electronically on the business set forth in the Notice of the EGM through electronic voting system of the NSDL ('remote e-voting'). The Members are hereby informed that:

- (ii) The remote e-voting shall commence on August 20, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and end on August 24, 2021 at 5:00 p.m. (IST).
- The remote E-voting module shall be disabled by NSDL for e-voting on August 24, 2021 at 5:00 p.m. (IST)
- convening the EGM and up to the cut-off date i.e. August 18, 2021 may obtain his login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting the vote.
- subsequently; (b) The facility for voting will also be made available during the EGM and those Members present in the EGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the EGM; (c) The Members who have cast their votes through remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their votes again, (d) Members whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the EGM.
- members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the members. The details will be made available on the website of the Company at www.tejasnetworks.com/extra-ordinary-general-meeting.php.
- (vi) The Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and Members holding shares in physical form are requested to consider to update their email addresses with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in to receive the Notice of the EGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the EGM through VC.
- (vii)In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Ashok Sherugar, AVP - Technology Group, Link Intime India Pvt. Ltd., C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Ph. No. +91 22 49186000 and e-mail ID: ashok.sherugar@linkintime.co.in who will also address grievances connected with voting by electronic For Tejas Networks Limited

N R Ravikrishnan General Counsel, Chief Compliance Officer and Company Secretary

Last Date for Submission of Offers / EMD : 04 September 2021 till 5.00 pm. Important Terms & Conditions of Sale:

 The property/documents can be inspected on the above given date and time with the Authorised Officer of Bank. Bid document/Form containing all the general terms and conditions of sale can be obtained from Authorised Officer on any working

day during office hours at Bank's Branch Office mentioned herein above. The intending bidders should send their sealed bids on the prescribed Bid Form to Authorised Officer of Bank. Bid to be submitted in sealed envelope mentioning the Bid for Auction Residential property situated at H.No. E-3/46. At Sector H LDA Colony, Kanpur Road Yojana, Vidyadeyi Nagar, Distt, Lucknow, Uttar Pradesh, and accompanied with EMD (being 10% of the

Bid Amount) by Demand Draft drawn in favour of "Shivalik Small Finance Bank Ltd", payable at Lucknow on or before 02 September 2021, till 5.00 p.m at the above-mentioned Branch office of Bank. Bids that are not filled up or Bids received beyond last date and time will be considered as invalid Bid and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, the same cannot be withdrawn. The sealed bids will be opened on 08 September 2021 at 13:00 hrs -14:00 hrs at the above mentioned Branch Office of Bank in the

presence of the bidders present at that time and thereafter the eligible bidders may be given an opportunity at the discretion of the Authorised officer to participate in inter-se bidding to enhance the offer price.

The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs.50,000/-. The property will not be sold below the Reserve Price set by the Authorised Officer. The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately not later than next working day by

Demand Draft drawn in favour of Shivalik Small Finance Bank Ltd, payable at LUCKNOW and the balance amount of sale price shall be paid by the successful bidder within 15 days from the date of confirmation of sale by Bank. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 25%, whatever the case may be, shall be forfeited by the Bank, if the successful bidder fails to adhere to the terms of sale or commits any default. On Compliance of terms of sale, Authorised Officer shall issue "Sale Certificate" in favour of highest bidder. All the expenses related

to stamp duty, registration Charges, Conveyance, GST, TDS etc. to be borne by the bidder/purchaser.

Bank does not take any responsibility to procure any permission/NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e. outstanding water/electric dues, property tax or other charges if any.

The successful bidder shall bear all expenses including pending dues of any Development Authority if any/taxes/utility bills etc. to Municipal Corporation or any other authority/agency and fees payable for stamp duty/registration fee etc. for registration of the

(10) The Authorised Officer reserves the absolute right and discretion to accept or reject any or all the offers/bids or adjourn/cancel the

sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice.

(11) To the best of its knowledge and information, the Bank is not aware of any encumbrances on the property to be sold except of Bank Interested parties should make their own assessment of the property to their satisfaction. Bank does not in any way guarantee or

makes any representation with regard to the fitness/title of the aforesaid property. For any other information, the Authorised Officer shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government or anybody in respect to the aforesaid property. The notice is hereby given to the Borrower (s) / Mortgager(s)/ Guarantor(s), to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale. (12) The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter

se bidding, if deemed necessary.

(13) Bank is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the Bank. (14) The Borrower (s) / Mortgager(s) / Guarantor(s) are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 6(2), 8(6) & 9(1)

OF THE SARFAESI ACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses within thirty days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/guarantors/mortgagers pays the amount due to Bank, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. . However in such cases, Further interest will be charged as applicable, as per the Loan documents on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.

(15) Bidder shall be deemed to have read and understand the terms and conditions of sale and bound by them.

New Delhi

For further details, contact the Authorised Officer Mr.Abhishek Tiwari/ Mr.Ganesh Shankar Gunjan- Contact No. 7753059740, 8795818764 at above mentioned Branch office of Bank Please note that the secured creditor, the Bank is going to issue sale notice to all the Borrower/Co-

Borrowers/Guarantors/Mortgagors by POST by their addresses. In case, the same is not received by any of the parties, then this publication of sale notice may be treated as substituted mode of service. If the Auction fails due to any reasons whatsoever, the Company would at liberty to sell the above mortgaged property/ies through

private treaty as per provisions mandated under SARFAESI Act, 2002.

Place:- Lucknow Date: 03.08.2021

Authorised Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd.

### Date : 02.08.2021 financialexp.epap.in

Registration Number of the Liquidator

8 Last date for submission of claims

Address:

Email Address.

Tel. No.

"No such proposal is under

state Krishan Pal Gurjar told Parliament on Monday, referuse of electric cars by loweradding charging stations.

The reply to lawmakers may be perceived as part of the tug-of-war between Prime Minister Narendra Modi's administration, which wants to boost local manufacturing, and Tesla, which is urging India to allow it to import cars more cheaply before it commits to setting up a factory in the country. Tesla last month wrote to the transport and industry ministries requesting them to cut import duty on electric cars to 40% from the current range of 60%-100%, Bloomberg

*News* had reported.

Those deterrents have also CAPFIN INDIA LIMITED CIN: L74999DL1992PLC048032 Regd. Off: PP-1, Gali No.10, Industrial Area

NOTICE Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Monday August 9, 2021 at 12:30 p.m. at the registered office of the company at PP-1 Gali No. 10, Industrial Area Anand Parvat New Delhi - 110005 to consider, approve and take on record, inter-alia the quarterly unaudited financial results of the Compan for the quarter and the year ended on June 2021 and other relevant matters. For Capfin India Limited

Anand Parvat, New Delhi - 110005

Email: capfinindialtd@yahoo.co.in

Rachita Mantry Place: Delhi Date: August 2, 2021 Whole Time Director Din: 03414391

SATIA INDUSTRIES LIMITED CIN No: L21012PB1980PLC004329

Pursuant to Regulation 29(1) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Require ments) Regulation, 2015, It is hereby intimated that the Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, 13th August, 2021 inter alia to consider and approve the Standalone Un-audited Financial Results of the

Company for the Quarter ended on 30th June, 2021. It is also informed that the trading window shall re-open at 9:00 AM on 16th August, 2021, in accordance with the "Code of Conduct for Prevention of Insider Trading "as adopted by the Company in compliance of SEBI (Prohibition

For Satia Industries Limited

(Rajinder Kumar Bhandari) Joint Managing Director

can be seen on

Date: 02.08.2021 Uttarakhand Co-operative Dairy Federation Ltd. Haldwani E-Tender Notice No. 06 (I-4)/UCDF/2021-22 E-tenders are invited by the undersigned, from experienced, reputed and

financially sound Firms/Manufacturers/civil contractors for the following tems so as to reach this office on or before 16.08.2021 up 5.00 PM. The tenders will be opened on 17.08.2021 at 11.00 AM. Details Name of Work SIT&C of IMCU and Design, development, Tender fee, EMD, and customization, implementation, support & other related details

Construction of Production Block at E-Tender portal Pithoragarh dairy & renovation of factory/ godown at CFP Rudrapur Tender documents may be downloaded/uploaded from E-tender Portal

#### http://www.uktenders.gov.in **Managing Director** "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

# FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 For the attention of the stakeholders of KSA RAMPART PRIVATE LIMITED (FORMERLY KNOWN AS AEROSTAR FINANCE PRIVATE LIMITED) Name of Corporate Person KSA Rampart Private

Aerostar Finance Private Limited) Date of Incorporation of Corporate Person 19.05.1995 Authority under which Corporate Person is Registrar of Companies, NCT of Delhi incorporated / registered & Haryana

CIN of Corporate Person U74999DL1995PTC068822 Address of the Registered Office and Principal 5801, Basti Harphool Singh, Sadar Office (If Any) Of Corporate Person Bazar, New Delhi-110 006 India Liquidation commencement date of Corporate Person 30.07.2021

Details of Liquidator of Corporate Persons Name FCA Sudhir Chandi

Resurgent Resolution Professionals Unitech Business Zone Tower C, 9<sup>th</sup> Floor, Unit No. 905, Sector-50, Gurugram, Haryana-122018 Email Id: ksa.vl@resurgentrp.com

Mob. No. - +91 99113 08123

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-

P01126/2018-2019/11879

**Limited** (formerly known as

Notice is hereby given that the KSA Rampart Private Limited (formerly known as Aerostan Finance Private Limited) has commenced voluntary liquidation on 30.07.2021. The stakeholders of KSA Rampart Private Limited (formerly known as Aerostar Finance Private Limited) are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 29.08.2021, to the liquidator at the address mentioned against item 7. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other

stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Place: New Delhi **Sudhir Chandi** 

Place : Bengaluru **Liquidator of KSA Rampart Private Limited** 

Date: August 2, 2021

Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date (i.e) August 18, 2021 may cast

(i) The business as set forth in the Notice of the EGM may be transacted through remote e-voting or e-voting at the EGM.

(iii) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice

(iv) Members may note that (a) Once the vote on a resolution is cast by a Member via remote e-voting, it cannot be changed

(v) The manner of voting remotely for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the

(ACS Membership No.: 7875)

E-Tender Notice No. 06 (I-4)/UCDF/2021-22 E-tenders are invited by the undersigned, from experienced, reputed and financially sound Firms/Manufacturers/civil contractors for the following tems so as to reach this office on or before 16.08.2021 up 5.00 PM. The

tenders will be opened on 17.08.2021 at 11.00 AM. Details Name of Work SIT&C of IMCU and Design, development, Tender fee, EMD, and customization, implementation, support & other related details maintenace of Dairy ERP Module. can be seen on

Construction of Production Block at E-Tender portal

Pithoragarh dairy & renovation of factory/

godown at CFP Rudrapur

Tender documents may be downloaded/uploaded from E-tender Portal http://www.uktenders.gov.in

Managing Director

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग क्षेत्र भरतपर दूरभाष नं. 05644-221500 ई-मेल- rj acebha@nic.in क्रमांकः-ई-निविदा सुचना 126 से 128/21-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड एआर- पार्ट-II अपेण्डिक्स 16, दिनांक 1.7.99 से लाग एवं समय समय पर आदिनाक तक वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित परिपत्रीं के अनुरूप, जन स्वा. अभि. विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं अन्य संवेदकों जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दुरसंचार, रेल्वे, अन्य राज्य/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/संगठनों में पंजीकृत हो जो कि राजस्थान सरकार के एए/ए श्रेणी (यथा प्रयोज्य) के संवेदकों के समकक्ष हो या राजस्थान सरकार के अन्य विभागों में एए/ए श्रेणी पंजीकृत हो, जो निविदा प्रपत्रों में वांछित योग्यता रखते हों से ई-टेण्डरिंग के द्वारा निविदा संख्या 126-128/21-22 (कुल 3 कार्य) आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं की कुल अनुमानित लागत रु. 1187.24 लाख है। निविदा प्रपत्र वेब साईट http://sppp.rajasthan.gov.in तथा http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन देखे जा सकते हैं। http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन बिड डालने की अवधि दिनांक 01.08.2021 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 24.08.2021/06.09.2021 को सायं 6.00 बजे तक रहेगी। उपरोक्त निविदाएं दिनांक 25.08.2021/07.09.2021 को प्रातः 11.30 बजे, उक्त वेबसाईट पर कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

NIB code: PHE2122A2429 UBN No.: PHE2122WLOB05446 PHE2122WSOB05447

(आर.एस. गुप्ता) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, क्षेत्र भरतपुर

# MARUTI & SUZUKI मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

CIN: L34103DL1981PLC011375 पंजी. कार्याः प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 फोन: +91 (11) 46781000, फैक्स: +91 (11) 46150275 www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

विडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'), और ई-वोटिंग पर जानकारी की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पवित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी मामलें पर समी लागू परिपत्रों एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के अनुपालन में एजीएम की सुबना में निर्धारित किये जाने वाले व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की एजीएम मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 को प्रातः 10.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्यगण https://emeetings.klinlech.com पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए

एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को मेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.marutisuzuki.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी चपलबा हैं।

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('दरस्थ ई-मतदान') के माध्यम से देने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (कॅफिन) की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के तरीके और रिमोट ई-बोटिंग (वोट ढालने के लिए) के निर्देशों का पालन करें, जिसका विवरण

एजीएम में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की लिए सुविधा (इंस्टा पोल) उपलब्ध होंगी और केवल वे सदस्य जो एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं दिया है और जिन्हें वोट देने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, केवल वे ही अपना एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र होंगे।

दूरस्थ ई-मतदान के संबंध में यूजर आईडी एवं पासवर्ड सहित विस्तृत जानकारी एवं निर्देश

सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दिये गये हैं। इन लॉगइन विवरणों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए उपयोग करना होगा। दूरस्थ ई-मतदान के विवरण इस प्रकार हैं:

• दरस्थ ई-मतदान आरंग होने की तिथि एवं समयः 20 अगस्त, 2021 (प्रातः 9.00 नजे) • दुरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समयः 23 अगस्त, 2021 (सायं 5.00 बजे) 23 अगस्त, 2021 (सार्य 5.00 बजे) के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी

जिन सदस्यों का नाम कट ऑफ विधि अर्थात 17 अगस्त, 2021 के सदस्यों / लाम भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे, वे केवल दूरस्थ ई-मतदान या एजीएम में भागीदारी और इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिये अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे एजीएम की सूचना में उपलब्ध विस्तृत प्रक्रिया जो कंपनी की वेबसाइट तथा केफिन की वेबसाईट पर उपलब्ध है का अनुसरण कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड

जिन सदस्यों ने ई-मतदान द्वारा अपना मतदान किया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। दूरस्थ ई-मतदान व लाइव वेबकास्ट से संबंधित किसी भी पृष्ठताष्ठ/शिकायतों के लिये

सदस्य / लाभ भोगी स्वामी निम्न पर्ते पर सम्पर्क करें

श्री राज कुमार काले, सहायक महाप्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, सेलेनियम बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिस्टिक्ट, नानकरामगृडा, गोधीबावली, हैदराबाद-500032, फोन नं. 040- 67162222 या टोल फ्री नं. 1-800-30-94-001; ई-मेलः evoting@kfintech.com या केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx पर उपलब्ध एफएक्यू सैक्शन को देखें। सदस्यगण ई-मेल: investor@maruti.co.in पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

मास्रति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

संजीव ग्रोबर नई दिल्ली

**छप-अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव** 

03 अगस्त, 2021 रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड

# CIN: L51909WB1982PLC035358

पंजीकृत कार्यालयः 9/1, आर.एन. मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता- 700 001 दुरभाषः 2242 9956, 2248 7068, फैक्सः 2248 6369,

ई-मेलः ronsontraders@birlasugar.org, वेबसाइटः www.ronsontraders.com

रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड का डीलिस्टिंग ऑफर

रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड ('कंपनी') के निजी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("डीलिस्टिंग विनियम, 2021") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के आदेश धारक संदर्भ नंबर 'डब्ल्यूटीएम/जीएम/सीएफडी/12/2020–21' दिनांक 19 जून, 2020 ("डीलिस्टिंग ऑर्डर") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शुद्धिपत्र आदेश धारक संदर्भ संख्या 'डब्ल्यूटीएम/जीएम/सीएफडी/12ए/2020–21' दिनांक 29 जून, 2020 के प्रावधानों के अनुसार दीपशिखा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ("प्रमोटर एक्वायरर") ने दिनांक 04 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से 20,820 (बीस हजार आठ सौ बीस) भुगतान इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रु 10.00/- (केवल दस रुपये) ("इक्विटी शेयर") है, जो कंपनी के निजी शेयरधारकों से कंपनी के इक्विटी शेयरों की कल इक्विटी और वोटिंग शेयर पूंजी के 3.63% के अनुरूप है जैसा कि डीलिस्टिंग विनियम ("निजी शेयरधारक") के तहत

इस संबंध में, प्रमोटर एक्वायरर ने गुरुवार, 29 जुलाई, 2021 को निजी शेयरधारकों को एक प्रस्ताव पत्र जारी किया है. और कंपनी के सभी निजी शेयरधारकों को सोमवार. 02 अगस्त. 2021 को उक्त प्रस्ताव पत्र का प्रेषण कंपनी ने पूरा कर लिया है। डीलिस्टिंग विनियम, 2021 के विनियम 35(2)(डी) के प्रावधानों के अनुपालन

परिभाषित किया गया है, का अधिग्रहण करने और उसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जहां वर्तमान

में कंपनी के इक्विटी शेयर सुचीबद्ध हैं, से सुचीबद्ध 5,73,000 (पांच लाख तिहत्तर हजार) इक्विटी शेयरों को

(ए) अपने इक्विटी शेयरों को फ्लोर प्राइस पर या आपके द्वारा निर्धारित सांकेतिक मूल्य पर निविदा दें, जिसे निजी शेयरधारक द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित स्वीकृति सह पावती के रूप में दशार्या जाएगा, जिसे अनुलग्नक ए' के रूप में सलग्न किया जाएगा। प्रमीटर एक्वायरर की संबंधित दस्तावर्जी के साथ प्रस्ताव पत्र प्रस्तत किया जाएगा: या

बी) कंपनी के निजी शेयरधारक बने रहें, डीलिस्टिंग ऑफर के लिए अपनी सकारात्मक सहमति देकर कंपनी के निजी शेयरधारक बने रहें, यह निर्दिष्ट करते हुए कि आप कंपनी के शेयरधारक होने में रुचि रखते हैं और अगर कंपनी के इक्विटी शेयर हैं तो कोई आपत्ति नहीं है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से असचीबद्ध किया गया जिसके लिए प्रस्ताव पत्र के साथ 'अनलग्नक बी' के रूप में सहमित फॉर्म की एक प्रति संलग्न है:

(सी) यदि आप उक्त डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आप कंपनी के पोस्ट-डिलिस्टिंग ऑफर के सार्वजनिक शेयरधारक होने के लिए सहमत हैं, और निकट भविष्य में इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा;

सेबी के आदेश के अनसरण में. कैपिटल स्क्वायर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ("मर्चेंट बैंकर") ने 20 अप्रैल 2021 के मुल्यांकन प्रमाण पत्र के माध्यम से, कंपनी के इक्विटी शेयरों के उचित मुल्य को डीलिस्टिंग विनियमों

के संदर्भ में, विचार करने के बाद निर्धारित किया था जिसकी दो स्वतंत्र समकक्षों द्वारा प्रदान की गई मल्यांकन रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट की समीक्षा की गई. जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण सीए अनुज कुमार, मेसर्स जैन एंड सिंह एंड कंपनी के पार्टनर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, सदस्यता संख्या '059492' और फर्म पंजीकरण संख्या '307135ई' वाले जिसका कार्यालय पी- 41, प्रिंसेप स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 503, कोलकाता 700 072, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित है, के साथ संपर्क नंबर '022-256 484, 8835809', दिनांक 19 अक्टबर, 2020 के प्रमाण पत्र में कहा गया

1,242.76/- प्रति इक्विटी शेयर (रुपये एक हजार दो सौ बयालीस रुपये और छिहत्तर पैसे) है। सीए कृति अग्रवाल, मेसर्स पीडी रैंडर एंड कंपनी की पार्टनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सदस्यता संख्या '302753' और फर्म पंजीकरण संख्या '319295ई' जिसका कार्यालय 13, गणेश चंद्र एवेन्य, दूसरी मंजिल, सुइट नंबर 12, कोलकाता- 700 013, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित है के साथ संपर्क रुपये और बियासी पैसे) प्रति इक्विटी शेयर है:

नंबर '+022-236 6913/0651', और ईमेल पता 'pdrandar@hotmail.com' होने के साथ, 25 सितंबर, 2020 के प्रमाण पत्र के माध्यम से कहा गया है कि रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए उचित मूल्य 864.82/- रुपये (केवल आठ सौ चौसठ विभिन्न मापदंडों पर विचार करने और डीलिस्टिंग ऑर्डर के अनुसार, प्रमोटर एक्वायरर और मर्चेंट बैंकर

ने इक्विटी शेयरों का मल्य 1.242.76/- (केवल एक हजार दो सौ बयालीस रुपये और छिहत्तर पैसे) प्रति इक्विटी शेयर निकास मूल्य ("फ्लोर प्राइस") के रूप में निर्धारित किया है। आपसे अनुरोध है कि सांकेतिक मूल्य या सहमति फॉर्म को दर्शाते हुए स्वीकृति सह पावती के रूप में अपनी सहमति भेजने के लिए संबंधित दस्तावेज को बुधवार, 11 अगस्त, 2021 सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक पंजीकृत कार्यालय 9/1, आर. एन. मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता- 700001, पश्चिम बंगाल, भारत में जमा करें।

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड

अशोक कुमार डागा डीआईएन- 03621528

### COURT NOTICE

In The Court Of Ravipal Singh JMIC-1, Phagwara M/s Sampooma Feeds ( Proprietorship Concern), Opp Mauli Gate, G.T. Road, Phagwara Distt. Kapurthala Through Proprietor Asish Gupta S/o Sh. Yogesh Chander Gupta R/o 200 Hargobind Nagar, Phagwara, Distt Kapurthala Its Attorney Sh Charan Dass S/o Sh Gurmit Ram R/o Nathewal P.O. Sarhauli, Tehsil Phillaur,

Distt Jalandhar M/s RAGHOJI House Of Distribution Through Proprietor Sh Akash Kumar Sonu S/o Sh Kaushlendra Singh R/o H.no 07. Road 1, Rajpur Nagar, P.O Hajipur, P.S. Industrial Area Vaishali Bihar

CNR NO: PBKPA1-000689-2016 Next date: 10-09-2021 Publication Issued To: M/s Ragholi House Of Distribution Through Proprietor Sh Akash Kumar Sonu S/o Sh Kauhlendra Singh R/o H. No. 07, Road 1, Rajpur Nagar, P.O Hajipur, P.S Industrial Area Vaishali Bihar

In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 10-09-2021 at 10.00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_notice&di

strict=Kapurthala JMIC Phagwara

### Jaykay Enterprises Ltd.

(CIN: L99999UP1961PLC001187) Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur - 208 001 (India) Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665

E-Mail-prabhat.mishra@jaykayenterprises.com; Website- www.jaykayenterprises.com

#### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with 47(1) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the LODR Regulations'), a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, August 13, 2021 interalia to consider, approve and take on record Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results of the Company for the 1st Quarter ended on June 30, 2021 as per

Regulations. This Information is also available on the Website of the Company and the Stock Exchange i.e www.bseindia.com.

as per the Regulation 33 of LODR

For Jaykay Enterprises Ltd.

सूचना

(Prabhat Kumar Mishra) CFO & Company Secretary

Place: Kanpur Date : August 02, 2021

#### 🕸 कनाटका बक्रालामटड सार्वजनिक सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक नीलामी

मख्य कार्यालय: मंगलरु-575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128 ेशाखा भिवाड़ी : ए-७, भूतल, भगत सिंह कॉलोनी, सामने आशियाना बगीचा, भिवाडी-301019. जिला : अलवर, राजस्थान दूरभाष : 01493-230013, ई-मेल : bhiwadi@ktkbank.com

हमारे बैंक के कब्जे में निम्नलिखित वाहन की बिक्री सार्वजनिक नीलामी में 10.08.2021 को 11.00 बजे पर्वा. को प्लॉट सं. ए-७. भगत सिंह कॉलोनी. सामने आशियाना बगीचा. अलवर बाईपास रोड. भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान-301019 पर की जायेगी जो बैंक के बकाया राशि की वसली के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।

सम्पत्ति का विवरण : हंडई मॉडल I20 स्पोर्ट्ज + वीटीवीटी (पेट्रोल) पंजीकरण सं. HR36AG0452

आरक्षित मृल्य (अपसेट मृल्य) : रु. 5,30,000.00 नियम एवं शर्तें

इच्छुक संविदाकार वाहन का निरीक्षण पूर्व अनुमित लेकर किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान पहलवान पार्किंग यार्ड, एनएच-48, घाटल महानियावास, धारूहेडा, हरियाणा-123106 पर

आरक्षित मुल्य की वसुली के अध्यधीन, वाहन की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'' दशा में उच्चतम संविदा

राशि हेतु की जायेगी। सफल संविदाकार को तुरन्त सम्पूर्ण संविदा राशि का भूगतान करना होगा तथा वाहन की डिलीवरी

बैंक बिना कोई कारण बताये नीलामी के निरस्त या स्थगित करना अथवा उच्चतम संविदा को स्वीकार न करने का अधिकार है।

इन नियम शर्तों में जो समस्त मामले कवर नहीं हैं. बैंक का निर्णय सभी सम्बन्धितों पर अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

स्थान : भिवाडी कृते कर्नाटक बैंक लिमिटेड तिथि : 30.07.2021

फेडरल बैंक आपका सर्वोत्तम बैंकिंग साझेदार प्लॉट नं. 12, सेक्टर 12ए, द्वारका, नई दिल्ली-110078 पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल स्वर्ण की निजी बिक्री की सचना

सभी सम्बन्धितों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की निम्नलिखित शाखाओं के तहत निम्नलिखित स्वर्ण ऋण खातों में बंधक स्वर्ण आभूषण, जो विमोचित करने के लिए अतिशोध्य हैं और बार-बार सूचनाओं के बावजूद अब तक नियमित नहीं किये हैं, निम्नानुसार 09.08.2021 को या इसके पश्चात शाखा में बिक्री हेतु रखे जायेंगे :

खाता नाम	खाता संख्या	खाता नाम	खाता संख्या
रुद्राणी जानकी	15456200007208	शोभा कुमार	1545610003125
अजय मित्तल	15456200007000	ंमंगल सिंह	1545610003159
अजय मित्तल	15456200007018	देवेन्दर नाथ वी	1545610003158
अजय मित्तल	15456200007026	सूरन प्रसाद	1545610003156
बेनी जेग्स	15456100025888	भावना चटर्जी	1545610003163
बेनी जेम्स	15456100026035	मुकेश कुमार ओझा	1545610003165
बंटी	15456100031043	उषा रानी	1545610003172
पंकज डंगवाल	15456100031001	बोनी शर्मा	1545610003170
अनन्त कुमार	15456100031159	राज कुमार	1545610003174
चैताली सुद	15456100031134	सूरज प्रसाद	1545610003175
राजेश कुमार वर्मा	15456100031217	अवन्तिका शर्मा	1545610003182
राजेश कुमार वर्मा	15456100031209	संदीप त्यागी	1545610003187
राजेश कुमार वर्मा	15456100031191	भानू ढींगरा	1545610003192
राजेश कुमार वर्मा	15456100031183	करमबीर सिंह	1545610003190

(सी आई एन : U27100DL2011PLC219075) पंजीकृत कार्यालय : 28 नजफगड़ रोड, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110015 दूरभाष : +91 (11) 45021983-984; फैक्स नं. +91 (11) 45021982 वेबसाईट : www.jindalfittings.com

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 को उपधार (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खुण्ड (क) के मामले में

जिन्दल फिटिगंस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालर 28 नजफगड़ रोड़, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली - 110015 में स्थित है के मामले में

सार्वजिनिक सूचना आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय. नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 के अनुसरण में पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए इसके मेमोरन्डम आफ एसोसिऐशन के अनुच्छेद— 🛘 में बदलीकरण जो कि कंपनी की असाधारण आम सभा दिनांक 17 अप्रैल, 2021 ने विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है कि अनुमोदन हेत क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्षा

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रारुप एमसीए – 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में फाईल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अन्तमोदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली -110003 पते पर पंजीकृत डाके द्वारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते जिन्दल फिटिंगस लिमिटेड (विवेक चौधरी) कंपनी सक्रेटरी

एसीएमः 29335

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 2 अगस्त. 2021

प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 292/2020

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब—सेक्शन (4) संपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय-समय पर संशोधित ऋण वसुली ट्रिब्युनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना दिनांकः 02.08.2021

डायरी संख्या 400 बैंक ऑफ इंडिया बनाम डॉo राकेश भारती

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रू. 99,88,338.50 /- की वसुली हेत् ओ०ए० सं० 292/2020 संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 30.07.2021 को सूचीबद्ध किया गया था। यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया

जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 09.09.2021 को अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ०ए० में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट अपें, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें।

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिधति में किया जायेगा दिनांक 2 अगस्त, 2021 के दिन अधिकरण की मृहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्युनल के आदेशानुसार रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथ साफ रखें'' रुचि की अभिव्यक्ति

ओजोनाइजेशन/फिल्टेशन/एयरेशन प्रणाली सहित अशोधित जल/यजीआर जल के साथ मिश्रित करने हेत उपयक्त 20 एमजीडी जल शोधन संयन्त्र/ओजोनाइजेशन संयन्त्र के डिजाइन, निर्माण, संस्थापन, परीक्षण तथा कमिशनिंग का कार्य क्रियान्वित करना चाहता है :

नाइट्रोजन - 3.0 (मिग्रा/ली), पर्टीकुलेट अमोनिया-नाइट्रोजन- 01(मिग्रा/ली), PO ¾-पी- 1.2(मिग्रा/ली), विलेय PO ¾-पी- 1.0(मिग्रा/ली) पर्टीकुलेट PO¾- पी- 0.2 (मिग्रा/ली), विलेय बीओडी - 03 (मिग्रा/ली), पर्टिकुलेट बीओडी - 03(मिग्रा/ली), सीओडी- 53(मिग्रा/ली), विलेय सीओडी – 60 (मिग्रा/ली), पर्टिकुलेट सीओडी – 04 (मिग्रा/ली), कठोरता- 296(मिग्रा/ली), टीडीएस- 955(मिग्रा/ली), फीकल कोलीफॉर्म 21×10<sup>4</sup> (एमपीएन) द्वारका जल शोधन संयन्त्र में 3 वर्षों सहित अशोधित जल/यूजीआर के साथ मिश्रित करने हेतु उपयुक्त किया जाना है।

दोनों विभाग के लिए प्रयोज्य संभावित व्यय सहित सम्पूर्ण विशिष्टि, अपनाई जाने वाली तकनीक, स्पष्ट नियम एवं शर्तों, भूमि/वांछित क्षेत्रफल आदि सहित अपने प्रस्ताव जमा कर दें। इच्छुक फर्म स्पष्टीकरण/सूचना, कोई हो, के लिए श्री के.जी. मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, मोबाइल : 9650291163/ श्री योगेश लोचब, एई(ईएण्डएम), मोबाइल : 9650777672 ई-मेल : eewtpnangloi@gmail.com से सम्पर्क करें। पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी

विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 240 (2021-22)

जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड पंजी. कार्या.: 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा रोड, ग्राम खेरका मुसलमान, पी.ओ. टंडाहेरी, तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर, हरियाणा-124507, CIN: L01122HR1994PLC033029

**टेली**: +91-9811341542 ई-मेलः genomicvalley@gmail.com; हमसे http://www.genomicvalley.com पर मिलें

एतदद्वारा सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29 तथा 47(1)(ए) वे प्रावधानों के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड ("कम्पनी") व

निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 क 11.45 पर्वा. में आयोजित होगी, जिसमें अन्य बातों व अलावे 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही तथा तीनमाह वे लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथ अनुमोदन किए जाएंगे। सुचना कम्पनी की वेबसाईर www.genomic.valley.com तथा स्टॉक एक्सचैंज

की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड के लिये योगेश अग्रवात स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 02.08.2021 (प्रबंध निदेशक

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana CNR NO: PBLD03-022633-2019

Peshi: 17-09-2021 sublication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec-138 of N.I ACT M/s Nova Bicycle Industries

Versus Ajay Bhatia Notice To: Ajay Bhatia Prop Of M/s Gurdeep Enterprises 127/120, S- Block, Juhi Gaushala, Crossing Saket Nagar,

Kanpur U.P whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 17-09-2021 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, give under my hand and the seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs= district notice&district=ludhiana

#### प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में ]

JMIC Ludhiana

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए के मामले में

सिद्धार्थ पॉलीफोम प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U17290DL2007PTC168956) जिसका पंजीकृत कार्यालय: एस-233, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकत्त एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' मे स्थानांतरित करने के लिए 27 जून 2021 क आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम जापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है त वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल

कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें। एस-233, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर,

दिल्ली-110092 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से सिद्धार्थ पॉलीफोम प्राइवेट लिमिटेड सिद्धार्थ अग्रवाल दिनांक: 02.08.2021

स्थान: दिल्ली ढीआईएन: 08988510 ओ. पी. चेन्स लिमिटेड CIN: L27205UP2001PLC026372

८/१६, ए सेठ गली, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282003 ई-मेल : opchains@rediffmail.com वेबसाइट www.opchainsltd.com

20 वी वार्षिक आम बैठक की सचना

सुचित किया जाता है कि कंपनी की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), नोटिस दिनांकित 30.07.2021 के अनुसार सामान्य व्यवसायों पर चर्चा करने के लिए सोमवार, 30 अगस्त, २०२१ को सुबह ११:०० बजे टेम्पटेशन. बी -87, सेंट्रल बेंक रोड, कमला नगर, आगरा उत्तर प्रदेश-282005 पर आयोजित की जाएगी यह नोटिस, प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेस रिलप वित्तीय विवरण, और वार्षिक रिपोर्ट के साथ सभी विहित सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों के लिए जिनका-मेल पता 02.08.2021 को कंपनी पर पंजीकृत है, पर भेज दिया गया है। उन शेयरधारकों के लिए जिन्हें ये संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं. वे कंपनी की वेबसाइट से

उसी की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.opchainsltd.com पर भी उपलब्ध हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यागी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। बुक क्लोजरः - आगे सूचित किया जाता है वि एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के शेयर घारकों और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 21 अगस्त, २०२१ से सोमवार, ३० अगस्त, २०२१

(दोमों दिन समावेशी) तक बंद रहेंगी। ओ.पी. चेन्स लिमिटेड के लिये

अशोक कुमार गोयल दिनांक : 02.08.2021 अध्यक्ष/पूर्णकालिक निदेशक

40 एमजीडी डब्ल्यू.टी.पी., नांगलोई, नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड, द्वारका वाटर वर्क्स निम्नलिखित टर्शियरी ट्रीटमेंट (फिजियोकेमिकल) वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रदूषकों के उपचार हेत्

2. इस क्षेत्र की सभी एजेंसियों/विशेषज्ञों से निवेदन है कि वे दस दिनों (अर्थात 11.08.2021 को 3.00 बजे अप. तक) के भीतर सरकारी/अर्धसरकारी

अधिशासी अभियन्ता (ईएण्डएम) डब्ल्यूटीपी-एन

प्रद्यम्ना स्टील्स लिमिटिङ CIN: L27109DL1972PLC319974 पंजीकत कार्यालय : फ्लैट नं. 702, 7वां फ्लोर,

कंचनजंगा बिल्डिंग, 18-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-23310001-05,

मेल - hcsIndl@yahoo.co.in वेबसाइट : www.psteelltd.com सचना

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुपालन में, विनियम 29 के साथ पठित, कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार 13 अगस्त 2021 को होगी, जिसमें 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर मंजर किए जाएंगे।

मंडल के आदेशानुसार स्थानः नई दिल्ली मुरारी लाल बिरमीवाल

दिनांकः 02.08.2021 DIN: 00642510 प्रारूप संख्या आईएनसी-25क क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14

मैसर्स लहाडिया डम्पेक्स लिमिटेड (CIN: U52110DL1989PLC038685) जिसका पंजीकृत कार्यालय: सी-2/54. एस.डी.ए. हौज खास, नई दिल्ली-110016

में स्थित है, के मामले में एतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 30 जून, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छक है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हो, इस सूचना के छपने के 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय सी-2/54, एस.डी.ए. हौज खास, नई दिल्ली-110016 में भी भेज दें।

कते मैसर्स लहाडिया इम्पेक्स लिमिटेड तिथि: 02.08.2021 निर्मल जैन (निदेशक) **स्थान** : नई दिल्ली

Apollo

02.08.2021

CAPFIN INDIA LIMITED CIN: L74999DL1992PLC048032 Read, Off: PP-1, Gali No.10, Industrial Area Anand Parvat, New Delhi - 110005

> Notice is hereby given that the meeting of registered office of the company at PP-1, Gali No. 10, Industrial Area Anand Parvat, New Delhi - 110005 to consider, approve and take on record, inter-alia the quarterly unaudited financial results of the Company for the quarter and the year ended on June, 2021 and other relevant matters.

Rachita Mantry Date: August 2, 2021

# कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

CIN: L74110DL1980PLC010678 पंजी. कार्याः 905, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली- 110001 फोन:- 91-11-40045965

ईमेलः complianca@kotiaentarprises.com,

सेबी (सुचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेद्याएँ) विनियमावली, 2015, के विनियम 29 (1) (ए) और 47(1) (ए) और 33 के अनुसरण में, एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि, मैसर्स कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडजलोन जनकेक्षित वितीय परिणामों पर विचार

आयुष जिंदल स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव एवं RIPG: 02.08.2021 अनुपासन अधिकारी



पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 (CIN:L45101DL1979PLC009654) वेबसाईटः www.acilnet.com, ई-मेलः cs.corpoffice@acilnet.com सुचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन,

2015 के विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 को पंजी. कार्यालय ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में वर्च्यअल/विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (दोनों स्टैंडएलॉन एंव समेकित) तथा एजेण्डा के अन्य मदों. यदि कोई हो, पर विचार किये जाएंगे। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लि. के लिये

हस्ता/-स्थानः नई दिल्ली विपिन कुमार तिवारी

तिथि: 02.08.2021

इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली 110076 (भारत ) निगणित पहचान रांख्या. : L24232DL1988PLC030958 दूरभाष : 91-11-26925858, 26925801, फेक्स : 91-11-26823629 ई-मेल : imcl@apollohospitals.com, येवरराष्ट्र : delhi.apollohospitals.com सेबी (लिस्टिंग दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के

विचार तथा अनुशंसा की जायेगी। उपर्यक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://delhi.apollohospitals.com

विनियम 47 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी की निदेशक मंडल

की बैठक सोमवार 09 अगस्त 2021, को आयोजित की जायेगी जिसमें,

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर

पर और स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। नई दिल्ली

एवीपी - कॉर्पोरेट मामले एवं विधि प्रपत्र क

विनियमावली, 2017 का विनियम 14] केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का एयरोस्टार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के हितधारकों के ध्यानार्थ केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का कॉर्पोरेट व्यक्ति का ना

सार्वजनिक घोषणा

[ भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

एयरोस्टार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) 3. प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है 4. कॉर्पोरेट व्यक्ति की कार्पोरेट पहचान U74999DL1995PTC068822 संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या 5801, बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, नई दिल्ली प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता 110 006 भारत कॉर्पोरेट व्यक्ति के सम्बन्ध में परिसमापन 30.07.2021 आरंभन की तिथि परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष एफसीए सुधीर चण्डी नम्बर तथा पंजीकरण संख्या पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP- P01126/2018-

रीसर्जेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एलएलपी (आईपीई) यूनिटेक बिजिनेस जोन टॉवर सी, 9वीं मंजिल, यूनिट नं. 905, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018, ई-मेल आईडी : ksa.vl@resurgentrp.com मोबाइल नं. : +91 99113 08123

एतद्वारा सचना दी जाती है कि **केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्व का एयरोस्टार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) ने 30.07.2021 को स्वैच्छिक परिसमापन प्रारम्भ कर दिया है। केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का एयरोस्टार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के हितधारकों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 29.08.2021 को अथवा इससे पूर्व परिसमापक के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 7 के समक्ष वर्णित पते

पर प्रस्तत करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी हितधारक व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से जमा कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी। सुधीर चंडी स्थान : नई दिल्ली तिथि : 02.08.2021 केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक

ओरिएन्ट बेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8, इण्डिस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद-203205, (उ.प्र.) कॉर्पोरेट कार्यालय : आइरिस हाउस, 16, बिजिनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 सीआईएन :L14101UP1977PLCO21546, दुरभाष :+91-11-47119100 ई-मेल आईडी : investor@orientbell.com, वेबसाइट :www.orientbell.com शेयरधारकों के लिए सुचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में इक्विटी शेयरों का अंतरण यह सचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसचित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियमावली 2016 तथा यथासमय संशोधित (''नियमावली'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में

ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ उस परिप्रेक्ष्य में समस्त शेयरों के अन्तरण का प्रावधान करते हैं

जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में लगातार सात

वर्षों तक शेयरधारकों को लाभांश नहीं प्रदान किया गया या दावा नहीं प्रस्तत किया गया। तदनुसार, उन शेयरधारकों के पास उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना भेज दी गयी है जिनके परिप्रेक्ष्य में वित्त वर्ष 2013-14 से लाभांश अप्रदत्त/अदावाकत हैं और इस प्रकार कथित नियमों के तहत आईईपीएफ में अन्तरित होने योग्य हैं। कम्पनी ने आईईपीएफ में अन्तरित होने के लिए बकाये ऐसे शेयरधारकों तथा शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.orientbell.com पर अपलोड कर दी है।

उपर्युक्त के आलोक में ऐसे समस्त शेयरधारकों से वित्त वर्ष 2013-14 से आगे के लिए अप्रदत्त लाभांश के दावे हेतु 17.08.2021 तक कम्पनी/इसके रजिस्ट्रार के पास आवेदन करने का निवेदन किया जाता है ताकि उनके शेयर आईईपीएफ में अन्तरित न किये जायें। कृपया ध्यान दें कि यदि कम्पनी या रजिस्ट्रार के पास 17.08.2021 तक कोई दावा/आवेदन नहीं प्राप्त होता है तो कम्पनी कथित नियमों में वर्णित नियत प्रक्रिया का अनुपालन करके बिना कोई भावी सूचना दिये शेष शेयरों को आईईपीएफ में अन्तरित करने के लिए बाध्य होगी कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर होने वाले समस्त भावी लाभ, लाभांश भी आईईपीएफ को अन्तरित

किये जायेंगे। सभी शेयरधारकों से उपर्युक्त प्रावधानों पर ध्यान दें तथा समय-समय पर समस्त अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने का निवेदन है।

अनुपालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से पुनः दावा किया जा सकता है। इस विषय पर किसी स्पष्टीकरण हेतु सदस्य कृपया कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., यूनिट ओरिएन्ट बेल लि., एफ-65, प्रथम तल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 020, दूरभाष : +91-11-41406149, ई-मेल : admin@mcsregistrars.com. पर सम्पर्क करें।

यह भी ध्यान दिया जाये कि वर्तमान नियमों के अनुसार आईईपीएफ में अन्तरित शेयर और ऐसे शेयरों

पर होने वाले समस्त लाभ, यदि कोई हो, का दावा कथित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का

योगेश मेंदीरता कम्पनी सचिव एवं हेड लीगल

कते ओरिएन्ट बेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 702. 7वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग,

हिंदस्थान बिजनेस कारपोरेशन लिमिटिङ

CIN: L65993DL1981PLC299385

18-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोन : +91-11-23310001/5.

ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in वेबसाइट : www.hbcorpltd.com.in

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुपालन में, विनियम 29 के साथ पठित, कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार

30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेत् अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर मंजुर किए जाएंगे। मंडल के आदेशानुसार

13 अगस्त 2021 को होगी, जिसमें

हस्ता/-नीरज जैन स्थानः नई दिल्ली निदेशक

दिनांक:02.08.2021 DIN: 02726637 प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74899DL1992PTC048193) जिसका पंजीकृत कार्यालय: मकान नंबर बी-31. पहली मंजिल, ब्लॉक-बी, सैक्टर-23-ए,

गुंजन निकुंज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट

द्वारका, नई दिल्ली-110077 में हैं, के मामले में ....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता एतदद्वारा सार्वजनिक सचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' मे स्थानांतरित करने के लिए 20 जुलाई 2021 को

आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन

की पृष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख र बौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दसरा तल ार्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-10003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें ।

मकान नंबर बी-31, पहली मंजिल, ब्लॉक-बी, सैक्टर-23-ए, द्वारका, नई दिल्ली-110077 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से गुंजन निक्ंज एजुकेशनल इंस्टीटबुट प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 02 08 2021

सोनिका चंद्रा (निदेशक)

डीआईएन: 03012017

किंपनी (निममन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समझ उत्तरी क्षेत्र,

नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की चप-

घारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014

आईएनसी-26

के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) स्टेलर अकार्डटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74120DL2009PTC196262) विस्तका पंजीकृत कार्यालय एफ 247, सरिता विहार,

नई दिल्ली 110076 है के मामले में

एतदद्वारा सामान्य जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पश्चिम बंगाल राज्य" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेत् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत शुक्रवार, 2 जुलाई, 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकृत, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथ्य से चौदह (14) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक के पर्त बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पं0 दीनदयाल अंत्योदव भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत

कार्यालय पर मेजी जानी चाहिए: पताः "एक 247, सरिता विहार, नई दिल्ली कृते और उनकी और से

स्टेलर अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आराना लखोटिया निदेशक तिषिः 02.08.2021 DIN: 09183131 स्थानः नई दिल्ली

NUCLEUS न्यक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1989PLC034594 पंजी, कार्याः ३३-३५, त्यागराज नगर

मार्केट, नई दिल्ली-110003

फोन : +91 - 120 - 4031400

फैक्स : +91 - 120 - 4031672 ई-मेल : investorrelations@ nucleussoftware.com वेबसाइट : www.nucleussoftware.com सूचना सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण

अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 12 अगस्त 2021 को निम्नलिखित पर विचार एवं अनुमोदन हेत् आयोजित होना निश्चित है: क) 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेत्

कम्पनी के अंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों; ख) 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों। निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित

वित्तीय परिणाम 12 अगस्त 2021 को मंडल की बैठक की समाप्ति के उपरान्त घोषित किया जाएगा i इस सुचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (http://www.nucleussoftware.com/ investors) एवं स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट

(www.bseindia.com एवं www.nseindia. com) पर भी मंडल की बैठक का विवरण उपल्बंध हैं।

हस्ता./-

दिनांकः 2 अगस्त 2021

स्थानः नोएडा

है कि रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए उचित मुल्य

कृते न्युविलयस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्टस

पूनम मसीन कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

स्थानः कोलकाता दिनांक: 2 अगस्त, 2021

जिन्दल फिटिगंस लिमिटेर

द्वितीय तल, पारस टॉबर, माज़रा सहारनपुर सोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

 डॉ० राकेश भारती पुत्र श्री गुरूदास, मकान नं० 7, एसआर एकोमोडेशन, एसजीआरआरआईएमएचएस (इंद्रेश हॉस्पिटल) कैंपस, पटेल नगर, देहरादून- 248001

दिल्ली जल बोर्ड : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

1. रंग - साफ, पीएच मान - 7.7, टर्बिडिटी - 2.9 (एनटीयू), कुल निलम्बित ठोस - 08 (मिग्रा/ली), अमोनिया - 4.0 (मिग्रा/ली), विलेय अमोनिया-

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 02.08.2021

orientbel

NOTICE

Email: capfinindialtd@yahoo.co.in the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Monday August 9, 2021 at 12:30 p.m. at the

For Capfin India Limited

Whole Time Director Din: 03414391

वेबसाइटः www.kotiaenterprises.com बोर्ड बैठक की सूचना

तथा अनुमोदन करना है। कृते कोटिया एंटराबड्डजेज सिमिटेड

